



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 दिसम्बर, 2020

पौष 2, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2599/9-1-2020-18ए0क्यू0-17
लखनऊ, 23 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

संशोधन/शुद्धि-पत्र

प0आ0-548

जिला कानपुर देहात में नगर पंचायत मूसानगर के गठन के संबंध में अंतिम अधिसूचना संख्या 2025/9-1-2019-18ए0क्यू0-17, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 06 नवम्बर, 2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नगर पंचायत मूसानगर बनाये जाने हेतु प्रेषित उनके कार्यालय के प्रस्ताव दिनांक 22 फरवरी, 2018 में ग्राम गौसगंज, फत्तेपुर, रसूलपुर एवं मूसानगर बांगर की गाटाओं को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, किन्हीं कारणों से शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना में ग्राम गौसगंज का उल्लेख किया जाना छूट गया है, जबकि गौसगंज की आबादी एवं क्षेत्रफल प्रस्ताव में सम्मिलित था। ग्राम गौसगंज के समस्त क्षेत्र को अधिसूचना में सम्मिलित ग्राम फत्तेपुर, मूसानगर बांगर एवं रसूलपुर चारों ओर से घेरे हुये है। अतएव जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा शासन की निर्गत अधिसूचना संख्या 2025/9-1-2019-18ए0क्यू0-17, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 में ग्राम गौसगंज को सम्मिलित कर संशोधित अधिसूचना निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2-उपरोक्त के संबंध में उल्लेख करना है कि नगर पंचायत सृजन संबंधी शासनादेश संख्या 2979/9-1-2016-426सा-14, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 में निर्धारित मानक के प्रस्तर-3 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार नगर पंचायत, मूसानगर, जिला कानपुर देहात के गठन संबंधी अधिसूचना 2025/9-1-2019-18ए0क्यू0-17,

दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 में नगर पंचायत के सीमावर्ती गाटा संख्याओं का उल्लेख किया गया है। ग्राम गौसगंज, नगर पंचायत मूसानगर के मध्य में स्थित होने के कारण उक्त ग्राम की गाटाओं का उल्लेख अधिसूचना में नहीं किया गया है।

इस प्रकार नगर पंचायत, मूसानगर के मानचित्र में प्रदर्शित अतः नगर पंचायत मूसानगर के मानचित्र में प्रदर्शित ग्राम गौसगंज, फत्तेपुर, रसूलपुर एवं मूसानगर बांगर नगर पंचायत मूसानगर, जिला कानपुर देहात का भाग माना जायेगा।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।